

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के कार्य, अध्यक्ष व इतिहास

[S samanyagyan.com/hindi/gk-bcci-history-work-presidents](http://samanyagyan.com/hindi/gk-bcci-history-work-presidents)

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) क्या है और किसे कहते हैं?

बीसीसीआई की Full form है Board of Control for Cricket in India भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड और अपने नाम के मुताबिक भारतीय क्रिकेट बोर्ड जो है वो भारत में खेले जाने वाले क्रिकेट मैच या भारत की तरफ से खेले जाने वाले क्रिकेट खेल को चलाता है और उसे नियंत्रण भी करता है। आसान शब्दों में अगर कहें तो भारतीय क्रिकेट को पोषित करता है और राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्रिकेट की भागीदारी सुनिश्चित करता है।

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) का संक्षिप्त विवरण:

नाम	भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड
संक्षिप्त नाम	बीसीसीआई
अधिकार-क्षेत्र	राष्ट्रीय
स्थापना वर्ष	1928
संबद्धता विभाग	अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद
मुख्यालय	क्रिकेट सेंटर, वानखेड़े स्टेडियम, डी रोड, चर्चगेट, मुंबई, महाराष्ट्र, भारत
वर्तमान अध्यक्ष	सौरव गांगुली

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) का इतिहास:

बीसीसीआई विश्व क्रिकेट परिषद (आईसीसी) से सम्बद्ध बोर्ड है जिसका गठन 1928 में हुआ था और आज यह एक सरकारी संस्था है जिसे भारत सरकार संरक्षण देती है। बीसीसीआई का मुख्यालय मुंबई में है। बीसीसीआई का मुख्य काम भारत में होने वाले खेल टूर्नामेंट्स का नियंत्रण करना और उनका आयोजन करवाना और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भारत के खिलाड़ियों को भारत की ओर से खेलते हैं उनका भारत की ओर से प्रतिनिधित्व करना है।

चूँकि क्रिकेट भारत में बाकि खेलों से बहुत अधिक लोकप्रिय है जिसकी वजह से बीसीसीआई की गिनती दुनिया में सबसे अमीर बोर्ड में भी होती है। इसके अलावा बीसीसीआई खेलों में होने वाले प्रदर्शन के साथ साथ खेल की भावना को सुरक्षित रखने के लिए दूसरे निगरानी जैसे काम भी करती है जिसमें क्रिकेट के ऊपर होने वाले सट्टेबाजी को रोकना भी शामिल है और ऐसे खेल से जुड़े नियमों को भंग करने वाले खिलाड़ियों पर बोर्ड अक्सर फैसले लेती रहती है और मैच फिक्सिंग जैसे मामलों में दोषी पाए जाने पर आजीवन प्रतिबन्ध जैसे फैसले भी बोर्ड लेती है।

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) अध्यक्ष 2019:

भारत के सबसे सफल कप्तानों में से एक सौरव गांगुली बुधवार 23 अक्टूबर 2019 को सालाना आम बैठक में बीसीसीआई के 39वें अध्यक्ष बन गए हैं। जिससे सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त प्रशासकों की समिति का 33 महीने से चला आ रहा शासन खत्म हो हो गया है। बीसीसीआई अध्यक्ष पद के लिए गांगुली का नामांकन सर्वसम्मति से हुआ है, जबकि गृह मंत्री अमित शाह के बेटे जय शाह को सचिव बनाया गया है। उत्तराखंड के महिम वर्मान ए उपाध्यक्ष बने हैं। बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष और केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर के छोटे भाई अरुण धूमल कोषाध्यक्ष बनाया गया है जबकि केरल के जयेश जार्ज संयुक्त सचिव बने। गांगुली का कार्यकाल नौ महीने का ही होगा और उन्हें जुलाई में पद छोड़ना होगा, क्योंकि नये संविधान के प्रावधानों के तहत छह साल के कार्यकाल के बाद विश्राम की अवधि अनिवार्य है।

बीसीसीआई भारत में होने वाले निम्न टूर्नामेंट्स को आयोजित करवाने और निगरानी के लिए उतरदायी है:-

- इंडियन प्रीमियर लीग
- रणजी ट्रॉफी
- देवधर ट्रॉफी
- झैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी
- दलीप ट्रॉफी
- विजय हजारे ट्रॉफी
- ईरानी कप
- एनकेपी साल्वे चैलेंजर ट्रॉफी
- बीसीसीआई कॉर्पोरेट ट्रॉफी

वर्ष 1928 से अब तक बने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के अध्यक्षों की सूची:

अध्यक्ष का नाम	कब से	कब तक
ग्रांट गोवन	1928	1933
सर सिकंदर हयात खान	1933	1935
हमिदुल्लाह खान	1935	1937
केएस दिग्विजय सिंह	1937	1938
पी. सुब्बरायन	1938	1946
एन्थोनी एस डि'मीलो	1946	1951
जेसी मुखर्जी	1951	1954

अध्यक्ष का नाम	कब से	कब तक
महाराजकुमार विजय आनंद	1954	1956
सरदार सुरजीतसिंह मजीठिया	1956	1958
आरके पटेल	1958	1960
एमए चिदंबरम	1960	1963
फतहसिंह राव गायकवाड़	1963	1966
जेड आर ईरानी	1966	1969
ए एन घोष	1969	1972
पी एम रूंगटा	1972	1975
रामप्रकाश मेहरा	1975	1977
एम चिन्नास्वामी	1977	1980
एसके वानखेड़े	1980	1982
एनकेपी साल्वे	1982	1985
एस श्रीरमन	1985	1988
बीएन दत्त	1988	1990
माधवराव सिंधिया	1990	1993
आईएस बिंद्रा	1993	1996
राज सिंह डूंगरपुर	1996	1999
एसी मुथैया	1999	2001
जगमोहन डालमिया	2001	2004
रणबीर सिंह महेंद्रा	2004	2005
शरद पवार	2005	2008
शशांक मनोहर	2008	2011
एन श्रीनिवासन	2011	2013

अध्यक्ष का नाम	कब से	कब तक
जगमोहन डालमिया (अंतरिम)	2013	2013
एन. श्रीनिवासन	2013	2014
शिवलाल यादव (अंतरिम)	2014	2014
सुनील गावसकर (अंतरिम, आईपीएल)	2014	2014
जगमोहन डालमिया (निधन)	2015	2015
शशांक मनोहर	2015	2016
अनुराग ठाकुर	2016	2017
सीके खन्ना	2017	23 अक्टूबर 2019
सौरभ गांगुली	23 अक्टूबर 2019	वर्तमान अध्यक्ष

You just read: Bhartiya Kriket Kantrol Bord Ka Itihaas, Adhyakshon Ke Naam Aur Kaary